

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 7] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 13—फरवरी 19, 2016 (माघ 24, 1937)
No. 7] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 13—FEBRUARY 19, 2016 (MAGHA 24, 1937)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 1

[PART III—SECTION 1]

[उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के संलग्न और
अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं]

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public
Service Commission, the Indian Railways and by Attached and Subordinate Offices of the
Government of India]

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो

नई दिल्ली—110003, दिनांक 12 जनवरी 2016

सं.डीपी/पर्स-1/2016/0008/3/104/2014—श्री उमेश कुमार गोस्वामी ने अधिवर्षिता की आयु होने पर पुलिस अधीक्षक, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, दि.वि.पु.स्था. के पद का 30.11.2015 के अपराह्न से कार्यभार त्याग दिया है।

दीपिका सूरी
उप-निदेशक (कार्मिक)

दिनांक 14 जनवरी 2016

सं.डीपी/पर्स-1/2016/47/3/104/2014—श्री विश्वनाथ वर्मा ने अधिवर्षिता की आयु होने पर 31.12.2015 के अपराह्न से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, दि.वि.पु.स्था. के पद का कार्यभार त्याग दिया है।

दीपिका सूरी
उप-निदेशक (कार्मिक)

दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना

दिनांक 20 जनवरी 2016

सं. डीपीपर्स-I 2016/0016/3/88/2004-पर्स-1—श्री आर. एस. कुरील, अपर पुलिस अधीक्षक, के.अ.ब्यूरो, दि.वि.पु. स्थापना, ए.सी.बी., लखनऊ ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर, दिनांक 17.12.2015 के अपराह्न से केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में अपर पुलिस अधीक्षक के पद का कार्यभार त्याग दिया है।

दीपिका सूरी
उप-निदेशक (कार्मिक)

केन्द्रीय सतर्कता आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 27 जनवरी 2016

सं. 2/11/15-प्र./306163—श्रीमती बिमलजीत कौर, आयोग में प्रधान निजी सचिव को केन्द्रीय सतर्कता आयोग (स्टाफ) नियमावली, 2007 के नियम 4(2)(ख) के प्रावधानों के अंतर्गत वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव के पद पर वेतन बैंड रु. 15600—39100/— में ग्रेड वेतन 7600/— के साथ दिनांक 14.01.2016 (पूर्वाह्न) से नियुक्त किया जाता है। उनका कार्यकाल श्री के. वि. चौदरि, केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त के कार्यकाल के बराबर (को-टर्मिनस) अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, के लिए होगा।

पी. के. महान्ती
अवर सचिव (प्रशासन)
कृते केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त

गृह मंत्रालय

(न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 1 फरवरी 2016

सं. न्या.वि.से.नि./4/42/2014-99—निम्नलिखित वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायकों को न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय के अधीन केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं के संबंधित विधि विज्ञान प्रभागों में वेतन बैंड-2, रु. 9,300—34,800/— व ग्रेड वेतन रु. 5,400/— में कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के पद पर अधोलिखित दिनांक से पदोन्नति पर नियुक्त किया जाता है :

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	विधि विज्ञान प्रभाग जिसमें पदोन्नति पर नियुक्ति की गई है	नियुक्ति की तिथि
1	श्री पी. जयाकृष्णा	जीव विज्ञान प्रभाग	02.02.15
2	डा. सी. ए. भड्कंबेकर	न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस प्रभाग	15.01.15 (अप.)
3	श्री सीजो जॉन	बिस्फोटक विज्ञान प्रभाग	24.11.15

ए के गंजू
निदेशक व मुख्य न्यायालयिक वैज्ञानिक

एल.एन.जे.एन. राष्ट्रीय अपराधशास्त्र एवं विधि विज्ञान संस्थान

दिल्ली-110085, दिनांक 1 फरवरी 2016

सं. 3/10/2011—एलएनजेएन एनआईसीएफएस—श्री हरीश चन्द्र पाण्डेय, प्रशासनिक अधिकारी, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड, केन्द्रीय राजस्व नियन्त्रण प्रयोगशाला, नई दिल्ली-110012 को, प्रारंभ में 01.02.2016 (पूर्वाह्न) से रु. 9300—34800 (वेतन बैंड-2) व ग्रेड वेतन रु. 4600/— में तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति के आधार पर लोकनायक जयप्रकाश नारायण अपराधशास्त्र एवं विधि विज्ञान संस्थान (गृह मंत्रालय) में प्रशासनिक अधिकारी के पद पर एतद्द्वारा नियुक्ति किया जाता है। प्रतिनियुक्ति अवधि को प्रशासनिक सुविधा के अनुसार लोकहित में बढ़ाया या घटाया जा सकता है।

2. प्रतिनियुक्ति पर रहते हुए श्री हरीश चन्द्र पाण्डेय का वेतन कार्मिक, लोक शिकायत व पेंशन (कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग) के दिनांक 17.06.2010 के का.ज्ञा. सं. 6/8/2009—स्थापना (वेतन-।।) के अनुसार विनियमित किया जाएगा।

संदीप मित्तल
उप महानिरीक्षक (प्रशा.)

महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

नई दिल्ली-110003, दिनांक 21 दिसम्बर 2015

सं. डी.एक. 12/2004-कार्मिक-डी.ए.आठ—गृह मंत्रालय के आदेश संख्या I-21014/8/2013-NCB-II(IS-II Division) दिनांक 07/10/2015 के तहत केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के श्री त्रिलोक नाथ सिंह उप कमान्डेन्ट (इरला-5351), 153 बटा. के.रि.पु. बल का एन.सी.बी., में साहायक निर्देशक के पद पर 03 वर्षों के लिए प्रतिनियुक्ति पर चयन होने के फलस्वरूप इनकी सेवाएँ दिनांक 09/12/2015(अप0) से महानिदेशक एन.सी.बी. मुख्यालय के निपटान (disposal) पर रहेगी।

ए. वी. चौहान
पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

महानिदेशालय

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

नई दिल्ली-110003, दिनांक 12 जनवरी 2016

सं. ई-38013/02/अ-सू/रा-प-अ-/2016/कार्मिक-1/31—राष्ट्रपति द्वारा, श्री बी.एस. वशिष्ठ, कमांडेन्ट को रु. 37,400-67,000/ (पीबी-4) + ग्रेड पे रु. 8,700/- के वेतनमान में अनुमानित तौर पर के.ओ.सुब में वरिष्ठ कमांडेन्ट के पद पर दिनांक 14-04-2015 (पूर्वाहन) से, जिस तिथि से उनके तत्काल कनिष्ठ ने वरिष्ठ कमांडेन्ट का पदभार ग्रहण किया था, सहर्ष नियमित पदोन्नत किया जाता है।

2. श्री बी. एस. वशिष्ठ ने नियमित तौर पर वरिष्ठ कमांडेन्ट का पदभार दिनांक 08-01-2016 (अपराहन) को के.ओ.सुब समूह मुख्यालय चंडीगढ़ में ग्रहण किया है। अतः अनुमानित तिथि से वरिष्ठ कमांडेन्ट के पद पर उनकी पदोन्नति केवल वरीयता को संरक्षित करेगी और वह दिनांक 14-04-2015 (पूर्वाहन) से दिनांक 08-01-2016 (पूर्वाहन) तक वरिष्ठ कमांडेन्ट पद के किसी वेतन एवं भत्ते के बकाया का हकदार नहीं होंगे।

ह./— अपठनीय
महानिदेशक/के.ओ.सुब

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

(श्रम ब्यूरो)

शिमला-171 004, दिनांक 29 जनवरी 2016

सं. 5/1/2015.सी.पी.आई.—दिसम्बर, 2015 में औद्योगिक श्रमिकों का अखिल भारत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2001=100) 1 अंक घट कर 269 (दो सौ उनहत्तर) अंकों के स्तर पर रहा।

श्याम सिंह नेगी
उप महानिदेशक

उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

राष्ट्रीय परीक्षण शाखा

कोलकाता-91, दिनांक 20 जनवरी 2016

सं. जी-318/ए मुख्यालय 2012/एडीए—सक्षम प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित अधिकारी को राष्ट्रीय परीक्षण शाला के प्रशासनिक अधिकारी (ग्रेड-II) के पद पर, नियमित आधार पर रु. 9300—34800/- के वेतनमान सह ग्रेड-पे रु. 4600/- में अगले आदेश के जारी न होने तक सहर्ष प्रोन्नत किया जाता है, जिसका विवरण निम्नलिखित है:—

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	तैनाती का स्थान	प्रोन्नति की तिथि
1.	श्री क्यू. ए. सिद्धिकी	राष्ट्रीय परीक्षण शाला उ. क्षे. गाजियाबाद	18.12.2015 (अपराहन)
2.	श्री यू. सी. भट्ट	राष्ट्रीय परीक्षण शाला उ. पू. क्षे. गुवाहाटी	31.12.2015 (पूर्वाहन)

शंकर बसु
प्रशासनिक अधिकारी
कृते महानिदेशक रा.प.श.

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
(कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग)
विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय
फरीदाबाद-121001, दिनांक 21 जनवरी 2016

सं. ए-19025/55/2015-प्रशा.।—नियुक्ति प्राधिकारी, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय के विपणन अधिकारी (ग्रुप-।) (सर्वे, ट्रेनिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल) के पद से, श्री दत्तात्रय जीवाराम चौधरी का त्यागपत्र दिनांक 21 जनवरी, 2016(पूर्वाह्न) से स्वीकृत करते हैं ।

एल. अनंत
अवर सचिव

भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र
मुंबई-400085, दिनांक 21 जनवरी 2016

सं. पीडी/93/अधि/स्थापना/I&II/12062—निम्नलिखित तालिका में कॉलम-2 पर दर्शाए गए अधिकारियों द्वारा नामों के सामने कॉलम -3 पर दर्शाए गए पद, कॉलम -4 पर दर्शाई गई तारीखों को, कॉलम-5 पर दर्शाई गई घटना के आधार पर अधिकारियों द्वारा धारित पदों का कार्यभार त्याग किया गया है :-

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	त्याग किया गया पद का कार्यभार	पदत्याग करने की तारीख	घटना
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	श्री हेमंत भालचंद्र पानसे	वै. अ./एच+	29/11/2015 (अप)	मृत्यु
2	श्री अतुल कुमार टाक	वै. अ./एफ	11/12/2015(अप)	स्वेच्छानिवृत्ति
3	श्री रोहताश कुमार	वै. अ./सी	23/12/2015(अप)	त्यागपत्र
4	श्री अरुण रंजन सेन	वै. अ./ई	31/12/2015(अप)	अधिवर्षिता
5	श्री आनंद कुमार कुंडु	वै. अ./जी	31/12/2015(अप)	अधिवर्षिता
6	श्री सुरेश चोथमल अग्रवाल	उत्कृष्ट वैज्ञानिक	31/12/2015(अप)	अधिवर्षिता
7	श्री अरुण कुमार	उत्कृष्ट वैज्ञानिक एवं निदेशक	31/12/2015(अप)	सेवा अवधि में 4 वर्ष विस्तार के बाद सेवानिवृत्ति
8	डॉ. आर. एम. आलतेकर	वै. अ./एफ	31/12/2015(अप)	अधिवर्षिता
9	डॉ. बी. के. दत्ता	विशिष्ट वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष	31/12/2015(अप)	सेवा अवधि में 2 वर्ष विस्तार के बाद सेवानिवृत्ति
10	डॉ. (श्रीमती) एस. ए. मराठे	वै. अ./एफ	31/12/2015(अप)	अधिवर्षिता
11	डॉ. (श्रीमती) श्यामला आर. भरद्वाज	उत्कृष्ट वैज्ञानिक	31/12/2015(अप)	सेवा अवधि में 2 वर्ष विस्तार के बाद सेवानिवृत्ति

आर. पी. राजू
नियंत्रक

सं. पीडी/93/अधि/स्थापना/I &II/12062—निम्नलिखित कैडर तालिका में कॉलम-2 पर दर्शाए गए अधिकारियों द्वारा नामों के सामने कॉलम -3 पर दर्शाए गए पद, कॉलम -4 पर दर्शाई गई तारीखों को, कॉलम-5 पर दर्शाई गई घटना के आधार पर अधिकारियों द्वारा धारित पदों का कार्यभार त्याग किया गया है :-

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	त्याग किया गया पद का कार्यभार	पदत्याग करने की तारीख	घटना
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		शून्य रिपोर्ट		

आर. पी. राजू
नियंत्रक

मुंबई 85, दिनांक 27 जनवरी 2016

सं. पीडी/6(3)/2015-भर्ती-III/2016/1087—अध्यक्ष, पी. एवं सी.डी., भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, श्रीमती सुविद्या मुकुल मनवाडकर, सहायक लेखाकार, भारी पानी बोर्ड, मुंबई को दिनांक 15.01.2016 (पूर्वाह्न) से, आगामी आदेशों तक रु. 9300—34800 के वेतन बैंड-2 तथा ग्रेड वेतन रु. 4800/— इस अनुसंधान केंद्र में सहायक लेखा अधिकारी के पद पर नियमित रूप से नियुक्त करते हैं।

मुत्तुलक्ष्मी जे.
सहायक कार्मिक अधिकारी

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

(कार्यालय कम्पनी रजिस्ट्रार)

कम्पनी अधिनियम 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

कानपुर-208002, दिनांक 28 जनवरी 2016

सं. एल सी/560(5) 5738—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों का नाम रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है :-

	Company Name	CIN No.	SRN No.
1	चौधरी आटो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड	U65921UP1985PTC007404	C66179516
2	जीरो लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड	U80102UP2008PTC036288	C67729327
3	आल इजी सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	U72300UP2012PTC049828	C70037338
4	वियामी साफटेक प्राइवेट लिमिटेड	U72900UP2013PTC061386	C70051388
5	रायल क्रीडो मार्केटिंग कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड	U74120UP2012PTC050392	C70412929
6	रेव क्लाथिंग प्राइवेट लिमिटेड	U74120UP2014PTC066653	C70959804
7	केजीएनएचडब्लू इन्फ्राहाइट्स प्राइवेट लिमिटेड	U70102UP2014PTC065653	C71085435
8	उमिला डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	U65910UP1997PTC022829	C71089718
9	अमनराज हास्पिटल्स प्राइवेट लिमिटेड	U85191UP2011PTC044832	C71107783
10	बेगसीम फार्मा प्राइवेट लिमिटेड	U24233UP2011PTC045079	C71084321
11	मीनाझी कोलोनाइजर्स एण्ड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	U45201UP2005PTC029857	C71131551
12	गोमती कोलोनाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड	U45201UP2005PTC029969	C71131924
13	ला अमौर क्लब प्राइवेट लिमिटेड	U55204UP2012PTC053275	C71209605
14	अदिति जीएमपी सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	U74120UP2012PTC052249	C71276216
15	लाइफग्लो रेमिडीस प्राइवेट लिमिटेड	U33111UP2013PTC054856	C71341705
16	यूनिक डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड	U21012UP1990PTC012183	C71431159
17	स्वनिल राज एगो केमिकल इण्टरप्राइसेस लिमिटेड	U01113UP1996PLC020423	C71515258
18	एलेक्स डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	U45400UP2011PTC045230	C71522189
19	अभूत डेयरी एण्ड फार्म उद्योग प्राइवेट लिमिटेड	U74120UP2013PTC056028	C71577019
20	जैस आईटी सेल्यूशन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	U72300UP2014PTC067637	C71523724
21	एसडीआई इनफोकाम डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	U72400UP2007PTC034140	C71688741

	Company Name	CIN No.	SRN No.
22	भगवती डिटरजेण्ट प्राइवेट लिमिटेड	U24241UP1989PTC010367	C71715957
23	रेखी इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड	U74120UP2013PTC059538	C71753677
24	मैड रिटेल प्राइवेट लिमिटेड	U72501UP2014PTC061947	C71814032
25	एफलक्स एजेंसी सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	U74120UP2014PTC064552	C71888267
26	फ्रीडम कारपोरेट कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड	U74120UP2011PTC046406	C72143332
27	साईनाथ इन्फ्रा वेन्चर्स प्राइवेट लिमिटेड	U45202UP2014PTC061724	C72209125
28	एन्जेलहैवेन बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड	U74120UP2010PTC043002	C72209661
29	आईईएस सेल्युशन प्राइवेट लिमिटेड	U45400UP2012PTC053441	C72272750
30	एसके इडिबिल आयल प्राइवेट लिमिटेड	U74120UP2010PTC042495	C72359508
31	श्री बांकेबिहारी साफटेक प्राइवेट लिमिटेड	U74900UP2011PTC044102	C72413388
32	शारजवी बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	U45400UP2012PTC051510	C72554983
33	ताजपुरिया ट्रेडिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	U14106UP2000PTC025607	C72445240
34	यूनिरोज हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड	U24233UP2013PTC058956	C72572589
35	ग्रैंड सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	U74120UP2013PTC058506	C72585516
36	सैटियेट कम्यूनिकेशन ओपीजी प्राइवेट लिमिटेड	U74120UP2014OPC067690	C72664667
37	टेक मास्टरमाइण्ड इन्फोसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड	U72300UP2011PTC044642	C72708019
38	जेएनएसएस इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड	U74120UP2013PTC058115	C72863202
39	बीबीएल रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड	U70102UP2014PTC065618	C73077240
40	श्वेता स्टील रोलिंग मिल्स प्राइवेट लिमिटेड	U27310UP1986PTC007663	C72963747
41	विवान ट्रेड लिंक्स प्राइवेट लिमिटेड	U52100UP2011PTC043465	C73195273
42	सेव एन सेव रियल स्टेट प्राइवेट लिमिटेड	U70102UP2015PTC069209	C73230302
43	अभिनव एक्सपेरटाइस सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	U74120UP2011PTC046672	C73289712
44	सोयम एग्रो आयल प्राइवेट लिमिटेड	U74120UP2011PTC044987	C73498396
45	वितस एडवाइजरी सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	U93030UP2010PTC040338	C73661837
46	गौरिएक पावर इन्फ्रा प्राइवेट लिमिटेड	U31908UP2013PTC057569	C73788176
47	ओम साई शैल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड	U45201UP2008PTC036481	B88551411
48	श्री दार्जजी बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड	U70102UP2011PTC046114	C17371501
49	ब्राइटस्टार्स नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड	U93000UP2010PTC039755	C35756642
50	रतीराम राजकुमार प्राइवेट लिमिटेड	U05004UP1995PTC017572	C41443318
51	एफडी कान्द्रकटर प्राइवेट लिमिटेड	U74120UP2013PTC054710	C41507237
52	वेबेल सेल्युशन्स वेबटेक प्राइवेट लिमिटेड	U72300UP2012PTC049066	C45189347
53	वसुन्धराविव रेजीडेन्सी प्राइवेट लिमिटेड	U45201UP2014PTC062765	C45203411
54	लिटिल पावर लर्निंग फाउण्डेशन	U80904UP2013NPL059445	C64607591
55	एग्रो काफ्टस प्राइवेट लिमिटेड	U15313UP2000PTC025388	C52825387

	Company Name	CIN No.	SRN No.
56	पाजिटिव इन्फोमीडिया प्राइवेट लिमिटेड	U74900UP2010PTC042332	C51814317
57	डिवाइन फूटस प्रिजर्वेशन प्राइवेट लिमिटेड	U74900UP2011PTC048120	C45291028
58	विधान मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सेल्यमशन प्राइवेट लिमिटेड	U74120UP2013PTC056967	C45275914
59	ब्रिजलोक आरगैनिक फूड्स प्राइवेट लिमिटेड	U01400UP2013PTC061096	C45222098

एस पी कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार,
उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड

CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

New Delhi-110003, the 12th January 2016

No. DP/Pers.-I/2016/0008/3/104/2014—Shri Umesh Kumar Goswami has relinquished charge of the post of Supdt. of Police, Central Bureau of Investigation, DSPE with effect from the afternoon of 30.11.2015 on attaining the age of retirement on superannuation

DEEPIKA SURI
Deputy Director (Pers.)

The 14th January 2016

No. DP/Pers.-I/2016/147/3/104/2014—Shri Viswanath Verma has relinquished charge of the post of Senior Superintendent of Police, Central Bureau of Investigation, DSPE with effect from the afternoon of 31.12.2015 on attaining the age of retirement on superannuation.

DEEPIKA SURI
Deputy Director (Pers.)

DELHI SPECIAL POLICE ESTABLISHMENT

New Delhi-110003, the 20th January 2016

No. DPPERS.I/2016/0016/3/88/2004-Pers-I—Sh. R. S. Kuril, ASP, CBI, ACB, Lucknow has relinquished charge of the post of Addl. Supdt. of Police, Central Bureau of Investigation with effect from the afternoon of 17.12.2015 on Voluntary Retirement.

DEEPIKA SURI
Deputy Director (Pers.)

CENTRAL VIGILANCE COMMISSION

New Delhi-110023, the 27th January 2016

No. 2/11/15-Admn/306133—Smt. Bimaljit Kaur, Principal Private Secretary in the Commission is hereby appointed as Sr. Principal Private Secretary in the Pay Band of Rs. 15600—39100/- with grade pay of Rs. 7600/- in accordance with Provisions of Rule 4(2)(b) of the CVC (Staff) Rules, 2007 with effect from 14th January 2016(F/N). Her tenure will be co-terminus with the tenure of Shri K. V. Chowdary, Central Vigilance Commissioner or till further orders whichever is earlier.

P. K. MOHANTY
Under Secy. (Admn.)
for Central Vigilance Commissioner

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(DIRECTORATE OF FORENSIC SCIENCE SERVICES)

New Delhi-110003, the 1st February 2016

No. DFSS/4/42/2014/3134—The following Senior Scientific Assistants are hereby appointed as Junior Scientific Officer in Central Forensic Science Laboratories under the Directorate of Forensic Science Services on promotion with effect from the date indicated against each in pay band PB-2 (Rs. 9,300—34,800/-) with Grade Pay of Rs. 4,600/-:—

S. No.	Name	Division in which promoted	Date of Appointment
1.	Sh. P. Jaya Krishna	Biology	02.02.15
2.	Dr. C. A. Bhadkambekar	Neutron Activation Analysis	15.01.15 (AN)
3.	Sh. Cijo John	Explosives	24.11.15

A. K. GANJOO
Director-cum-Chief Forensic Scientist

LNJN NATIONAL INSTITUTE OF CRIMINOLOGY AND FORENSIC SCIENCE

Delhi-110085, the 1st February 2016

No. 03/10/2011-LNJJN NICFS—Pursuant to Ministry of Finance, Department of Revenue Central Board of Excise and Customs, Central Revenues Control Laboratory, New Delhi Office Order No. 177-Admn./Per/91 dated 01st February, 2016. Shri Harish Chandra Pandey, Administrative Officer, Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Revenues Control Laboratory, New Delhi, is hereby appointed as Administrative Officer in the Pay Band of Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay of Rs. 4,600/- (Revised) in the LNJJN National Institute of Criminology and Forensic Science (MHA), Delhi on Deputation basis for a period of 3 (three) years with effect from the afternoon of 01st February, 2016.

SANDEEP MITTAL
DIG (Admn.)

DIRECTORATE GENERAL, CRPF

New Delhi, the 21st December 2015

No. D.I.12/2014-Pers-DA-8—Consequent on his selection for appointment to the post of Assistant Director in Narcotics Control Bureau (NCB), New Delhi on deputation basis in the Pay Scale of Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay of Rs. 6,600/- (PB-3) for a period of 03 (three years) effective from the date on which he takes over the charge of the post of Assistant Director in NCB vide MHA IS-Division Order No. I-12014/8/2013-NCB-II dated 07/10/2015, services in respect of Shri Trilok Nath Singh, Dy. Comdt (IRLA-5351) of 153 Bn is placed at the disposal of Director General NCB, New Delhi w.e.f. 09/12/2015(AN).

ABHAY VIR CHAUHAN
DIG(Pers)

DIRECTORATE GENERAL

CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE

New Delhi, the 12th January 2016

No. E-38013/02/Noti./GOs /2016/Pers.1/31—The President is pleased to appoint Shri B.S.Vashisht, Commandant on regular promotion to the rank of Sr. Commandant in the Pay Scale of Rs. 37,400—67,000/- (PB-4) plus Grade Pay Rs. 8,700/- notionally with effect from 14.04.2015 (FN) i.e. from the date on which his immediate junior had assumed charge of Sr. Commandant.

2. Shri B. S. Vashisht has assumed the charge of the post of Sr. Commandant on regular basis on 08.01.2016 (AN) at CISF Group HQrs. Chandigarh. The notional date of promotion in the rank of Sr. Commandant would only safeguard his seniority and he will not be entitled for arrears of pay and allowance for the post of Sr. Commandant w.e.f. 14.04.2015 (FN) to 08.01.2016 (FN).

Sd/-ILLEGIBLE
Director General/CISF

MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT

(LABOUR BUREAU)

Shimla-171004, the 29th January 2016

No. 5/1/2015-C.P.I.—The All-India Consumer Price Index Number for Industrial Workers on base : 2001=100 decreased by 1 point and stood at 269 (two hundred sixty-nine) for the month of December, 2015.

SHYAM SINGH NEGI
Deputy Director General

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS

FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION

(DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS)

NATIONAL TEST HOUSE

Kolkata-91, the 20th January 2016

No. G-318/A (HQ)2012/ADA—The Competent Authority is pleased to promote the following officers to the post of Administrative Officer (Grade-II), National Test House, on regular basis, until further orders,

in the Pay Band of Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay of Rs. 4600/- in PB-2, as per details mentioned against each:—

Sl. No.	Name of the Officers	Place of Posting	Date of Promotion
1.	Shri Q. A. Siddiqui	National Test House, NR, Ghaziabad	18.12.2015(A/N)
2.	Shri U. C. Bhatt	National Test House, NER, Guwahati	31.12.2015(F/N)

SANKAR BOSE
Administrative Officer
for DG, NTH

MINISTRY OF AGRICULTURE & FARMERS WELFARE

(DEPARTMENT OF AGRICULTURE, COOPERATION & FARMERS WELFARE)

DIRECTORATE OF MARKETING & INSPECTION

Faridabad-121001, the 21st January 2016

No. A-19025/55/2015-A.I—The Appointing Authority is pleased to accept the resignation of Shri Dattatray Jivaram Chaudhari from the post of Marketing Officer (Group-I) (Survey, Training & Quality Control) in the Directorate of Marketing & Inspection, with effect from 21st January, 2016 (Forenoon).

L. ANANTH
Under Secy.

BHABHA ATOMIC RESEARCH CENTRE

Mumbai-85, the 21th January 2016

No. 93/Notification./I&II/12062—The Officers whose names are mentioned in column 2 of the table below, relinquished charge of the post held by them, as indicated in column 3 with effect from the dates mentioned in column 4 consequent on the event mentioned in column 5 thereof :—

Sr. No.	Name of the officer	Relinquished the charge of the post of	Date of relinquishment	Event
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Shri Hemant Bhalchandra Panse	SO/H+	29/11/2015 (AN)	Death
2	Shri Atul Kumar Tak	SO/F	11/12/2015 (AN)	VRS
3	Shri Rohtash Kumar	SO/C	23/12/2015 (AN)	Resignation
4	Shri Arun Ranjan Sen	SO/E	31/12/2015 (AN)	Superannuation
5	Shri Ananda Kumar Kundu	SO/G	31/12/2015 (AN)	Superannuation
6	Shri Suresh Chothmal Agrawal	OS	31/12/2015 (AN)	Superannuation
7	Shri Arun Kumar	OS & Director	31/12/2015 (AN)	Retirement after 4 yrs of extension of service
8	Dr. R. M. Altekari	SO/F	31/12/2015 (AN)	Superannuation
9	Dr. B. K. Dutta	DS & Head	31/12/2015 (AN)	Retirement after 2 yrs of extension of service
10	Dr. (Smt.) S. A. Marathe	SO/F	31/12/2015 (AN)	Superannuation
11	Dr. (Smt.) Shyamala R. Bharadwaj	OS	31/12/2015 (AN)	Retirement after 2 yrs of extension of service

R. P. RAJU
Controller

No. 93/Notification./I&II/ 12062—The Cadre Officers whose names are mentioned in column 2 of the table below, relinquished charge of the post held by them, as indicated in column 3 with effect from the dates mentioned in column 4 consequent on the event mentioned in column 5 thereof :—

Sr. No.	Name of the officer	Relinquished the charge of the post of	Date of relinquishment	Event
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		NIL REPORT		

R. P. RAJU
Controller

Mumbai- 85, the 27th January 2016

No. PD/6(3)/2015-R-III/2016/1087—Head, P&CD, Bhabha Atomic Research Centre appoints Smt. Suvidya Mukul Manwadkar, Assistant Accountant, Heavy Water Board, Mumbai to officiate as Assistant Accounts Officer in the Pay Band-2 of Rs. 9,300—34,800 + Grade Pay Rs. 4,800/- in this Research Centre with effect from the forenoon of 15.01.2016 on regular basis until further orders.

MUTHULAKSHMI J.
Assistant Personnel Officer

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

(O/o. REGISTRAR OF COMPANIES)

In the matter of companies Act 1956 and of the following companies

Kanpur-208001, the 28th January 2016

No. LC/560(5)/5738—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the following companies have this day been struck off from the Register of Companies from the date of this publication. These companies shall stand dissolved:—

Sl. No.	Company Name	CIN No.	SRN No.
1	CHAUDHARY AUTO FINANCE PRIVATE LIMITED	U65921UP1985PTC007404	C66179516
2	ZEERO LEARNING PRIVATE LIMITED	U80102UP2008PTC036288	C67729327
3	ALL EASE SERVICES PRIVATE LIMITED	U72300UP2012PTC049828	C70037338
4	VIAMI SOFTECH PRIVATE LIMITED	U72900UP2013PTC061386	C70051388
5	ROYAL CREDO MARKETING CONSULTANTS PRIVATE LIMITED	U74120UP2012PTC050392	C70412929
6	RAVE CLOTHING PRIVATE LIMITED	U74120UP2014PTC066653	C70959804
7	KGNHW INFRAHEIGHTS PRIVATE LIMITED	U70102UP2014PTC065653	C71085435
8	URMILA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	U65910UP1997PTC022829	C71089718
9	AMANRAJ HOSPITALS PRIVATE LIMITED	U85191UP2011PTC044832	C71107783
10	BAGSEM PHARMA PRIVATE LIMITED	U24233UP2011PTC045079	C71084321
11	MEENAKSHI COLONISERS AND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	U45201UP2005PTC029857	C71131551
12	GOMTI COLONISERS PRIVATE LIMITED	U45201UP2005PTC029969	C71131924
13	LA AMOUR CLUB PRIVATE LIMITED	U55204UP2012PTC053275	C71209605
14	ADITI GMP SERVICES PRIVATE LIMITED	U74120UP2012PTC052249	C71276216

Sl. No.	Company Name	CIN No.	SRN No.
15	LIFEGLOW REMEDIES PRIVATE LIMITED	U33111UP2013PTC054856	C71341705
16	UNIQUE DISTRIBUTORS PRIVATE LIMITED	U21012UP1990PTC012183	C71431159
17	SWAPNIL RAJ AGRO-CHEMICAL ENTERPRISES LIMITED	U01113UP1996PLC020423	C71515258
18	ALEX DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	U45400UP2011PTC045230	C71522189
19	ABHOOT DAIRY AND FARM UDYOG PRIVATE LIMITED	U74120UP2013PTC056028	C71577019
20	JASS IT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U72300UP2014PTC067637	C71523724
21	S.D.Y. INFOCOM PRIVATE LIMITED	U72400UP2007PTC034140	C71688741
22	BHAGWATI DETERGENTS PRIVATE LIMITED	U24241UP1989PTC010367	C71715957
23	REKHI ENGINEERING CONSULTANTS PRIVATE LIMITED	U74120UP2013PTC059538	C71753677
24	MAD RETAIL PRIVATE LIMITED	U72501UP2014PTC061947	C71814032
25	AFFLUX AGENCY SERVICES PRIVATE LIMITED	U74120UP2014PTC064552	C71888267
26	FREEDOM CORPORATE CONSULTANTS PRIVATE LIMITED	U74120UP2011PTC046406	C72143332
27	SAINATH INFRA VENTURES PRIVATE LIMITED	U45202UP2014PTC061724	C72209125
28	ANGELHEAVEN BUSINESS PRIVATE LIMITED	U74120UP2010PTC043002	C72209661
29	IES SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U45400UP2012PTC053441	C72272750
30	S.K EDIBLE OILS PRIVATE LIMITED	U74120UP2010PTC042495	C72359508
31	SHRI BANKEY BIHARI SOFTECH PRIVATE LIMITED	U74900UP2011PTC044102	C72413388
32	SHARJAWI BUILDERS & DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	U45400UP2012PTC051510	C72554983
33	TAJPURIA TRADING COMPANY PRIVATE LIMITED	U14106UP2000PTC025607	C72445240
34	UNIROSE HEALTH CARE PRIVATE LIMITED	U24233UP2013PTC058956	C72572589
35	GRAD SERVICES PRIVATE LIMITED	U74120UP2013PTC058506	C72585516
36	SATIATE COMMUNICATION OPC PRIVATE LIMITED	U74120UP2014OPC067690	C72664667
37	TECH MASTERMIND INFOSYSTEMS PRIVATE LIMITED	U72300UP2011PTC044642	C72708019
38	GNSS ENGINEERS PRIVATE LIMITED	U74120UP2013PTC058115	C72863202
39	BBL REALTORS PRIVATE LIMITED	U70102UP2014PTC065618	C73077240
40	SWETA STEEL ROLLING MILLS PRIVATE LIMITED	U27310UP1986PTC007663	C72963747
41	VIVIAN TRADE LINKS PRIVATE LIMITED	U52100UP2011PTC043465	C73195273

Sl. No.	Company Name	CIN No.	SRN No.
42	SAVE N SAVE REAL ESTATE PRIVATE LIMITED	U70102UP2015PTC069209	C73230302
43	ABHINAV EXPERTISE SERVICES PRIVATE LIMITED	U74120UP2011PTC046672	C73289712
44	SOYAM AGRO OILS PRIVATE LIMITED	U74120UP2011PTC044987	C73498396
45	WITS ADVISORY SERVICES PRIVATE LIMITED	U93030UP2010PTC040338	C73661837
46	GAURIAC POWER INFRA PRIVATE LIMITED	U31908UP2013PTC057569	C73788176
47	OM SAI SHELTERS PRIVATE LIMITED	U45201UP2008PTC036481	B88551411
48	SHRI DAUJI BUILDTECH PRIVATE LIMITED	U70102UP2011PTC046114	C17371501
49	BRIGHTSTARS NETMART PRIVATE LIMITED	U93000UP2010PTC039755	C35756642
50	RATI RAM RAJ KUMAR PRIVATE LIMITED	U05004UP1995PTC017572	C41443318
51	FD CONTRACTOR PRIVATE LIMITED	U74120UP2013PTC054710	C41507237
52	WEBBLE SOLUTIONS WEBTECH PRIVATE LIMITED	U72300UP2012PTC049066	C45189347
53	VASUNDHARAVIEW RESIDENCY PRIVATE LIMITED	U45201UP2014PTC062765	C45203411
54	LITTLE FLOWER LEARNING FOUNDATION	U80904UP2013NPL059445	C64607591
55	AGRO CRAFTS PRIVATE LIMITED	U15313UP2000PTC025388	C52825387
56	POSITIVE INFOMEDIA PRIVATE LIMITED	U74900UP2010PTC042332	C51814317
57	DIVINE FRUITS PRESERVATION PRIVATE LIMITED	U74900UP2011PTC048120	C45291028
58	VIDHAAN MANAGEMENT CONSULTANCY SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U74120UP2013PTC056967	C45275914
59	BRIJLOK ORGANIC FOODS PRIVATE LIMITED	U01400UP2013PTC061096	C45222098

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
UP & Uttarakhand

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में
अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा ई-प्रकाशित, 2016
UPLOADED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T.
FARIDABAD AND E-PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2016
www.dop.nic.in